

कोलोноस्कोपी




THE OHIO STATE UNIVERSITY
WEXNER MEDICAL CENTER

Colonoscopy

About the test

You are scheduled for a test called a **colonoscopy**. This test checks your large intestine, also called the colon, for abnormal growths or other problems. The test is done with a narrow, flexible tube that has a light and camera. The tube is put in through your rectum and into your colon. The test helps your doctor diagnose illnesses and make plans for treatment, if needed.

You will need to do a bowel prep to clean out your colon a day or two before the test. Follow the instructions for your bowel prep as provided.



परीक्षण के बारे में

आप कोलोноस्कोपी नामक एक परीक्षण के लिए नियत हैं। यह परीक्षण असामान्य वृद्धि या अन्य समस्याओं के लिए आपकी बड़ी आंत की जांच करता है, जिसे बृहदान्त्र भी कहा जाता है। परीक्षण एक संकरे, लचीली ट्यूब के साथ किया जाता है जिसमें प्रकाश और कैमरा होता है। ट्यूब आपके गुदा के माध्यम से आपके बृहदान्त्र में डाल दी जाती है। यह परीक्षण आपके डॉक्टर को बीमारियों का निदान करने में मदद करता है और यदि आवश्यक हो, तो उपचार के लिए योजना बनाने में मदद करता है। परीक्षण से एक या दो दिन पहले आपको अपना बृहदान्त्र साफ करने के लिए आंत सफाई करने की जरूरत पड़ेगी। अपनी आंत तैयारी के लिए प्रदान निर्देशों का पालन करें।

Having the test

- After you have registered, you will change into a hospital gown.
 - A nurse will review your medicine list and medical history.
 - An intravenous (IV) line will be placed to give you medicine during the test. Let the nurse know right away if you have had problems having an IV placed in the past.
 - When the nurse has you ready, you will be taken to a private room, where your test will be done.
- एक नर्स आपकी दवा की सूची और चिकित्सा इतिहास की समीक्षा करेगी।
 - परीक्षण के दौरान आपको दवा देने के लिए एक अंतःशिरा (IV) नली लगाई जाएगी। यदि आपको अतीत में IV लगाने से समस्याएं हुई थी, तो तुरंत नर्स को बताएं।
 - नर्स द्वारा आपको तैयार कर देने के बाद, आपको एक निजी कक्ष में ले जाया जाएगा, जहाँ आपका परीक्षण किया जाएगा।

परीक्षण से गुजरना

- You will be given a consent form to read over. The doctor will talk to you and go over the consent form. Ask any questions you have about the test before you sign the form.
- You will be given medicines in your IV to help you relax. You will likely rest on your left side.
- The doctor slowly moves the tube through your colon. The test takes 20 to 40 minutes.
- You may feel some cramping during and after the test that will improve after passing gas.
- आपको पढ़ने के लिए सहमति फॉर्म दिया जाएगा। डॉक्टर आपके साथ बात करेंगे और सहमति फॉर्म पढ़ेंगे। फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के पहले अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो पूछें।
- आपको आराम देने के लिए आपके IV में दवाई दी जाएगी। आपको संभवतः बाईं तरफ लेटने के लिए कहा जाएगा।
- चिकित्सक धीरे-धीरे आपके बृहदान्त्र में ट्यूब को आगे बढ़ाता है। परीक्षण में 20 से 40 मिनट तक लगते हैं।
- आप परीक्षण के दौरान या उसके बाद ऐंठन महसूस कर सकते हैं जो गैस निकलने के बाद ठीक हो जाएगा।

After the test

- You will be taken to a recovery area for 30 to 45 minutes.
- You will then change back into your clothes.
- The doctor will speak with you and your family member before you leave.
- Plan to take the day off of work and rest at home after the test.
- For your safety, it is best to have an adult with you for at least 6 hours at home.
- The medicine given during the test can cause you to have memory changes and impair your judgment. **Do not drive a motorized vehicle or operate heavy machinery. Do not sign any papers or make any legal decisions.**

परीक्षण के बाद

- आपको 30 से 45 मिनट के लिए रिकवरी क्षेत्र में ले जाया जाएगा।
- फिर आपको बदलने के लिए कपड़े दिए जाएंगे।
- आपके जाने से पहले डॉक्टर आपसे और आपके परिवार के सदस्यों के साथ बात करेंगे।
- परीक्षण के बाद काम से छुट्टी लेने की योजना बनाएँ और घर पर आराम करें।
- आपकी सुरक्षा के लिए, घर पर कम से कम 6 घंटे के लिए आपके साथ किसी वयस्क का होना बढ़िया रहेगा।
- परीक्षण के दौरान दी गयी दवा आपकी स्मृति में बदलाव और आपके निर्णय को खराब कर सकती है। **मोटर वाले वाहन नहीं चलाएँ या भारी मशीन संचालित नहीं करें। किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर न करें या न ही कोई कानूनी निर्णय लें।**